

सही **grammar** धाराप्रवाह और विश्वास के **English** बोलने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अतिरिक्त यह **English** में होने वाली आपकी गलतियों को सुधार कर आपकी इंग्लिश को और अधिक प्रभावशाली बनाने में भी मदद करता है।

पर कुछ ऐसी **situations** होती हैं जहाँ **English** बोलते या लिखते समय **grammar** का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे **job** इंटरव्यू में, **employer** आपके काम के साथ साथ आपकी **spoken** और **written** इंग्लिश की **quality** को भी ध्यान में रखता है। यहाँ तक की लगभग **50% failures**, इंटरव्यू में, गलत **spellings** और गलत **grammar** की वजह से ही होती है।

अब बात आती है **basic grammar** की। आपमें से बहुत लोगों का यह कहना होगा कि **Noun, Pronouns, adjective, adverbs, articles** हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इस कोर्स में फिर से क्यों?

इसका कारण है कि अभी तक हमने इनकी परिभाषा को सीखा, इनके भेदों को भी पर अब हम उन्ही सब बातों को एक नए तरह से सीखेंगे।

सबसे पहले जानते हैं **Noun** यानी संज्ञा की परिभाषा -

किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान या विचार को बताने वाले शब्दों को **Noun** (संज्ञा) कहते हैं ( **A noun is a word used as the name of a person, place or thing.** **thing** से हमारा मतलब है ऐसी सब चीजें जिनके बारे में हम सोच सकते हैं - **countable, uncountable, visible, invisible, touchable, untouchable, events, feelings**, इत्यादि।

अब हम जानते हैं **Nouns** के प्रकार -

**Noun is classified into five parts.** (संज्ञा पांच भागों में वर्गीकृत किया गया है )

- 1) **Proper Noun** (व्यक्तिवाचक संज्ञा ) .
- 2) **Common Noun** (जातिवाचक संज्ञा ) .
- 3) **Collective Noun** (समूहवाचक संज्ञा ) .
- 4) **Material Noun** (द्रववाचक संज्ञा ) .
- 5) **Abstract Noun** (भाववाचक संज्ञा ) .

### **1) Proper Noun (व्यक्तिवाचक संज्ञा )**

किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव के नाम को **Proper Noun** कहते हैं। (The name of a particular person, place, animal or thing is called a proper noun.) जैसे -

**Jawaharlal Nehru** was the first prime minister of **India**. (जवाहर लाल नेहरू भारत के पहले प्रधान मंत्री थे।)

We met **Shahrukh Khan**. (हम शाहरुख खान से मिले थे।)

I studied at the **Delhi University**. (मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा था।)

ऊपर दिए गए वाक्यों में **Jawaharlal Nehru, India, Shahrukh Khan, Delhi University**, ये सभी किसी एक विशेष व्यक्ति या जगह के नाम हैं इसलिए **Proper Noun** हैं। **Proper Noun** हमेशा **capital letter** से शुरू होता है।

## **2) Common noun (जातिवाचक संज्ञा)**

किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु की जाति के बारे में बताता है। अन्य शब्दों में सभी व्यक्तियों या वस्तुओं के सामान्य नाम। (Names of persons or things in general are called common noun.)

He goes to **office**. (वह ऑफिस जाता है।)

My **wife** is a **teacher**. (मेरी पत्नी अध्यापिका हैं।)

My **mother** is **cooking food**. (मेरी माँ भोजन पका रही है।)

दिए गए वाक्यों में **office, wife, teacher, mother, food**, ये सभी **common nouns** हैं। यह एक ही जाति के सभी लोगों की ओर संकेत करते हैं।

## **Common Noun और Proper Noun के बीच अंतर जानें -**

मान लीजिए आपके सामने दो मोबाइल रखे हुए हैं। एक है **Samsung mobile** और दूसरा है **OnePlus mobile**। दोनों में क्या समानता है? दोनों ही **mobile** हैं। इसलिए “**mobile**” एक **Common Noun** है। इन दोनों की जाति “**mobile**” है। वही अगर हम **Samsung** की बात करते हैं तो यह एक विशेष **company** का नाम है जो **mobile** भी बनाती है इसलिए **Samsung** और **OnePlus** **Proper Noun** हैं।

### **3) Collective noun (समूहवाचक संज्ञा )**

जो शब्द पूरे समूह का दर्शाये, उसे **Collective noun** कहते हैं। (The name of a group of persons, places, animals or things is called a collective noun.) जैसे -

**A fleet of ships** - जहाज़ों का बेड़ा समुद्र तट पर पहुँच गया।

**A gang of dacoits** - डकैतों का गिरोह

**A bunch of grapes** - अंगूरों का गुच्छा

**A team of players** - खिलाड़ियों का समूह  
इत्यादि

### **4) Abstract noun (भाववाचक संज्ञा)**

**Abstract noun** वो होते हैं जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। (A noun denoting an idea, quality, or state rather than a concrete object is called an abstract noun.) जैसे -

**Honesty** - ईमानदारी

**Love** - प्यार

**Hate** - घृणा

**Theft** - चोरी

अब एक **question** है कि **Love** तो एक **verb** है। बिल्कुल। इसके दो अर्थ होते हैं - 'प्यार' और दूसरा है 'प्यार करना'। प्यार एक **noun** है। इसी सिर्फ महसूस किया जा सकता है इसलिए यह **Abstract noun** हुआ जबकि प्यार करना एक क्रिया है जिससे काम का होना पता चलता है।

**Love is life.** प्यार ज़िन्दगी है। (यहाँ पर **love** एक भाववाचक संज्ञा है। **Love as an 'Abstract Noun'**)

**I love you.** मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। (यहाँ पर **love** एक क्रिया है। **Love as a 'Verb'**)

### **5) Material Noun (द्रव्यवाचक संज्ञा):-**

यह किसी भी पदार्थ का नाम होता हो सकता है। **Material Noun** की गिनती नहीं की जा सकती इसलिए यह **uncountable noun** होते हैं। (The Noun which denotes the materials is called material noun.)

जैसे-

**Copper** (तांबा)

Silver (चांदी)

Tea (चाय)

Coffee (कॉफ़ी)

**Cotton** dresses are very cheap and comfortable.

My mom purchased a **gold** ring for me.

My father has a shop of **diamonds**.

### Countable Nouns

वो संज्ञाएँ जो गिनी जा सकती हैं (**Anything that can be counted**) जैसे -

Pen, Boy, Book, Hair, Star, Girl, Man, Cow, City, Paper etc

### Uncountable Nouns

वो जो गिनी नहीं जा सकती हैं (**things that we cannot count with numbers**) जैसे -

Milk, Sugar, Honesty, Delhi, Money

आप सोच रहे होंगे कि 'Hair' और 'Star' तो अनगिनत होते हैं फिर इन्हें **Countable Noun** क्यों कहा गया।

देखिए, अनगिनत इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत अधिक होते हैं, गिनना मुश्किल है पर असम्भव तो नहीं है ना। गिन

तो सकते ही हैं। दूसरी बात हमने 'Money' को **Uncountable Noun** कहा है जबकि पैसे को हम गिन सकते हैं। पर

ध्यान दीजिए कि अंग्रेज़ी के इस शब्द 'Money' को हम **1 money, 2 money, 3 money** आदि नहीं कह सकते

इसलिए इसे **Uncountable** माना जाता है।

अब हम बात करते हैं कि **nouns** की **importance** क्या है? **Nouns** किसी भी वाक्य में अलग अलग उद्देश्य पूरा

करते हैं। **Nouns** और **Pronouns** ही किसी भी वाक्य का **subject** बनाते हैं। इसके अलावा **nouns** के भेद,

विशेषकर **countable** और **uncountable nouns** के बारे में सही ज्ञान होना आवश्यक है तभी आप सही **English**

बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। जैसे -

1) **Countable noun** के साथ 'a/an' लगाते हैं-

A carrot

a car

an apple

an idea

**2) Countable nouns** जब एक से ज़्यादा हों, तो उसका बहुवचन (**plural form**) का प्रयोग करते हैं -

cat - Cats

bus - Buses

bottle - Bottles

cup - Cups

**3) Countable nouns** के बारे में सवाल पूछना हो तो कहेंगे “**How many**”.

**How many oranges do you want?** (तुम्हें कितने संतरे चाहिए?)

**How many bricks are there?** (वहाँ कितनी ईंटें हैं?)

### **इसके विपरीत uncountable nouns -**

**1) Uncountable noun** गिने नहीं जा सकते इसलिए उनके साथ **a/an** नहीं आएगा।

**2) Uncountable noun** का बहुवचन (**plural form**) नहीं होता है। मात्रा बताने के लिए शब्द, भाव या मात्रा कहेंगे।

For Example-

थोड़ा नमक **some salt**

बहुत प्यार **lots of love**

एक कप पानी **one cup water**

चार किलो चावल **four kilo rice**

दो चम्मच चीनी **two spoons of sugar.**

Remember - We do not say one salt / a rice / an anger, etc..

**3) Uncountable noun** के बारे में सवाल पूछना हो तो कहेंगे “**How much**”

**How much sugar do you want?** (कितनी चीनी चाहिए?)

**How much rice is left?** (कितने चावल बचे हैं?)

**Uncountable nouns** को **plural** बनाने के लिए उनके साथ कुछ और **words** जोड़ें जाते हैं। **Using these**

**words can make your writing more specific. जैसे -**

- Garbage – There are nine bags of garbage on the curb.
- Water – Try to drink at least eight glasses of water each day.
- Advice – She gave me a useful piece of advice.
- Bread – Please buy a loaf of bread.
- Furniture – A couch is a type of furniture.
- Equipment –

• Cheese – Please pack ten slices of cheese for me.

UC- Lots of water

C- A glass of water

UC- some rice

C- A bowl of rice

UC – a lot of money

C – a bagful of money

तो अब आप बोलते समय या पीर लिखते समय **nouns** का सही प्रयोग कीजियेगा और गलती मत कीजियेगा।